

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1982/चैत्र 18, 1904
No. 140] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 1982/CHAITRA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश सं० 24/82

नई दिल्ली, 8 अप्रैल 1982

आयात व्यापार नियंत्रण

का० मा० 285 (अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का
18) की कंडिका 3 के अंतर्गत प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा
आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की
रचना करती है:—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1982 की संज्ञा दी जाए।
2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की वर्तमान कंडिका 10क के पश्चात् निम्नलिखित
कंडिका जोड़ी जाएगी अर्थात्:—

“10कक. आयात कोड संख्या के रूप में घोषणा, किसी भी सीमा शुल्क पतन पर
किसी भी मास का आयात करते समय आयातक आयात की प्रविष्टि
बिल प्रेषण नियमों द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेजों पर मुख्य नियंत्रक,

आयात-निर्यात द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसको आवंटित "आयातक कोड संख्या" का अभिलेख करेगा और ऐसे प्रविष्टि बिल अथवा दस्तावेजों के अन्त में इस प्रकार के लिए गए अभिलेख की सच्चाई के समर्थन में भरोसा देगा। जहाँ पर इस प्रकार की आयातक को आयात कोड संख्या प्राप्त करने से छूट प्राप्त है वह इस प्रकार की छूट प्रदान करने वाले मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के प्राधिकारी का नाम बतायेगा। (यह धारा 1 जलाई, 1982 से लागू होगी)।

[मि० सं० आई० टी० सी (एच० बी)/जेप०-1/82-83]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER NO. 24/82

New Delhi, the 8th April, 1982

IMPORT TRADE CONTROL

S.O. 265(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order, 1955 :

(1) This Order may be called the Imports (Control) Second Amendment Order, 1982.

(2) In the Imports (Control) Order, 1955, after the existing clause 10.A, the following clause shall be added, namely :—

"10. AA Declaration as to Importer Code Number,—

On the importation into any customs port of any goods, the importer shall, in the Bill of Entry or any other documents prescribed by Rules, state the 'Importer Code Number' allotted to him by the licensing authority in accordance with the procedure prescribed by the Chief Controller of Imports & Exports, and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill of Entry or documents. Where such importer is exempt from obtaining Importer Code Number, he shall cite the authority of the Chief Controller of Imports & Exports, granting him such exemption. (This clause shall come into force with effect from 1st July, 1982)".

[P. No. ITC(HB)/Chap. 1/82-83]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports & Exports.